



SIMBHAOLI SUGARS

Simbhaoli Sugars Limited

CIN-L15122UP2011PLC044210

GSTIN : 09AAPCS7569A1ZV

(An FSSC 22000 : 2011, ISO 9001 : 2008

& 14001 : 2004 Certified Company)

Corporate Office :

A-112, Sector-63, Noida-201307 (Delhi NCR) INDIA

Tel. : +91-120-480 6666

Fax : +91-120-2427166

E-mail : info@simbhaolisugars.com

www.simbhaolisugars.com

Ref: SSL: Stock Exchange

November 24, 2020

Bombay Stock Exchange Limited

PhirozeJeejeebhoy Towers

Dalal Street, Fort Mumbai

Fax No. 022-22723121/2037/2041

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra -Kurla Complex,

Mumbai- 400051

Fax No. 022-26598237/38

Ref: Scrip Code: NSE: SIMBHALS | BSE: 539742

Sub: 9th Annual General Meeting of the Members of the Company

Dear Sir,

Due to continuing Covid-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 & April, 13 2020 permitted the holding of Annual General Meetings (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM).

Therefore, in compliance with abovesaid Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has decided to convene the ensuing 9th AGM of the Members of the Company, scheduled be held on Monday, December 21, 2020 at 11:00 am through VC/OAVM.

We are enclosing herewith the copy of the newspaper advertisement published in Business Standard English and Hindi on November 23, 2020 editions regarding the disclosures under the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

You are requested to take the above on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Simbhaoli Sugars Limited

Kamal Samtani

(Company Secretary)

Specialty Sugars

Potable Alcohol

Ethanol

Power

REG. OFFICE : SIMBHAOLI, DISTT. HAPUR, UTTAR PRADESH-245207

संक्षेप में

सिकल लॉजिस्टिक्स ने कर्ज व ब्याज भुगतान में की चूक

काँफ़ो डे समूह की इकाई सिकल लॉजिस्टिक्स ने बैंकों व वित्तीय संस्थानों से ली गई 280.68 करोड़ रुपये की उधारी और उसके ब्याज भुगतान में चूक की है। बीएसई को भेजी सूचना में सिकल लॉजिस्टिक्स ने रविवार को कहा कि अल्पावधि व लंबी अवधि की उसकी कुल उधारी 30 सितंबर, 2020 को 913.87 करोड़ रुपये थी। उस रकम में कुल डिफॉल्ट इस तारीख को 280.68 करोड़ रुपये है।

बीएस

रिलैक्सो फुटवियर्स लगाएगी नया संयंत्र

रिलैक्सो फुटवियर्स लि. चालू वित्त वर्ष में 150 करोड़ रुपये के निवेश से नया विनिर्माण संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से खुले जूते-चप्पलों मसलन स्लिपर्स और सैंडल की मांग बढ़ी है, जिसे पूरा करने के लिए वह नया संयंत्र लगाने जा रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक रमेश कुमार दुआ ने कहा, कोविड-19 महामारी की वजह से खुले जूते-चप्पलों की मांग बढ़ रही है।

भाषा

सीजी पावर के लेनदार कर्ज पुनर्गठन पर सहमत

सीजी पावर एंड इंस्ट्रिमेंट्स सॉल्यूशंस के ऋणदाता एकबारागी ऋण पुनर्गठन के लिए सहमत हो गए हैं। इससे चेन्नई के मुद्दाम्पा समूह द्वारा घोटाले में धिरी उपकरण विनिर्माता कंपनी के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। सीजी पावर पर कुल 2,161 करोड़ रुपये का कर्ज है। इनमें 14 बैंकों का गटजोड़ 1,100 करोड़ रुपये का घाटा (हेयरकट) उठाने को तैयार हो गया है। शेष ऋण का पुनर्गठन किया जाएगा।

भाषा

Midhani <div>मिश्र धातु निगम लिमिटेड</div> <div>(भारत सरकार का एक उपक्रम) (एक मिनी पब्लिक कंपनी)</div> <div>पीओ : कंचनबाग, हैदराबाद-5000058, तेलंगाना</div> <div>फोन नं. 040-2434000। (10 लाइन्स) फ़ैक्स: 040-24340764 & 24340214</div>
<div> <div><div>ग्लोबल नोटिस</div></div></div>
<div><div>अभिरुचि की अभिव्यक्ति</div></div>
<div><ol style="list-style-type: none">नैल्लोर, आंध्र प्रदेश, भारत में इजीनियरिंग, प्रोक्टोरमेंट व कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सेवाओं के साथ-साथ एप्लूमीनियम एलॉय मेल्टिंग स्लैब कार्टिंग और पलेट रोड्ड प्रॉडक्ट्स प्रॉडक्शन फैसिलिटीज की सुविधा स्थापना के लिए ईपीओएफ कॉसल्टंटस की भर्ती।मैसर्स मिथानी आईएमटी रोहतक, (नई दिल्ली के निकट) में जेपी आधारित आर्मर युटिल में टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर और सिरामिक (हॉट प्रेस बोरोन कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट) की स्थापना।</div>
ईओआई के लिए नोटिस : 1) उपरोक्त ईओआई की अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.midhani-india.in देखें. 2) शुद्धि-पत्र / परिवर्तन केवल मिथानी की वेबसाइट पर डाले जाएंगे. 3) देय तिथि : निविदा दस्तावेजों के अनुसार.
<div><div>हस्ता./-जीएम (कमर्शियल)</div></div>

<div><div><div></div><div>SIMBHAOLI SUGARS LIMITED</div></div></div> <div>Regd. Office : Simbhaoli Dist. Hapur (U.P.)- 245207 CIN - L15122UP2011PLC044210 E-mail: info@simbhaolisugars.com Website: www.simbhaolisugars.com</div>				
<div>NOTICE</div> <div>In view of the continuing Covid-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 & dated April, 13 2020 permitted the holding of Annual General Meetings (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the upcoming 9th AGM of the Members of the Company will be held on Monday, December 21, 2020 at 10.00 a.m. through VC/OAVM.</div>				
<div>As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2019-20 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Registrar/Depositories. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. If your email ID is already registered as above, Notice of AGM along with Annual Report and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report and login details for e-voting.</div>				
<table><tbody><tr><td>Physical Holding</td><td>Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.</td></tr><tr><td>Demat Holding</td><td>Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.</td></tr></tbody></table>	Physical Holding	Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.	Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.
Physical Holding	Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.			
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.			
<div>The Annual Report will also be available on Company's website http://www.simbhaolisugars.com/ and website of the National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under the provisions of Section 103 of the Companies Act, 2013.</div>				
<div><div>For Simbhaoli Sugars Limited</div><div>Sd/-</div><div>Kamal Santani</div><div>Company Secretary</div><div>Membership No. FCS-5140</div></div>				

Physical Holding	Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

The Annual Report will also be available on Company's website <http://www.simbhaolisugars.com/> and website of the National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under the provisions of Section 103 of the Companies Act, 2013.

For Simbhaoli Sugars Limited
Sd/-
Kamal Santani
Company Secretary
Membership No. FCS-5140

बिज़नेस स्टैंडर्ड दिल्ली संस्करण
बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ. प्र. से मुद्रित एवं नेहल हाउस, 4 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित
संपादक: कैलाश नौटियाल

आरएनआई नं० WBHIN/2008/24333
पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर देय भेज सकते हैं।
टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599
सबरिक्फेशन और सब्सक्रिप्शन के लिए कृपया संपर्क करें-
सुश्री मानसी सिंह
हड कस्टमर रिलेशन्स
बिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं०
पैरागन सेंटर, सेचुरी मिल्स के सामने, पी वी नर्मल, वर्ली, मुंबई 400 013
ई मेल - subs_bs@bsmail.in
या 57007 पर ईएसएमएस करके SUB BS

डिसकलेमर-..बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्टें और फीचर लेखों के माध्यम से बाजार के प्रवृत्तियों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयत्न किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के विवेचनाएं एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम सिद्ध हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और किए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से उम्मीद किया जाने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सदाभामें अस्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। नौ बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशित या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अवधिकृत कार्य करने पर दैवानों और फौजदारी कार्यवाही शुच की जाएगी।

कोई इवाई अधिभार नहीं

बैंक, एनबीएफसी शेरारों में तेजी

स्वामित्व पर प्रस्ताव से बड़ा भरोसा, लेकिन ढांचागत बदलाव पर संशय बरकरार

हंसिनी कार्तिक मुंबई, 22 नवंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गठित इंटरनल वॉकिंग समूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट भारतीय वित्तीय सेवा कंपनियों के लिए सप्ताहांत तोहफा थी। इस रिपोर्ट में निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों के लिए स्वामित्व दिशा-निर्देशों और कॉरपोरेट ढांचे की समीक्षा की गई है। चाहे यह बैंकिंग सेक्टर में औद्योगिक घरानों को शामिल करने के लिए उसका सुझाव हो, या फिर से बैंकों के प्रवर्तकों को 26 प्रतिशत तक हिस्सेदारी या गैर-प्रवर्तक निवेशकों को 15 प्रतिशत हिस्सेदारी तक की अनुमति का प्रस्ताव हो, ये आईडब्ल्यूजी द्वारा प्रस्तावित बेहद महत्वपूर्ण ढांचागत बदलाव हैं।

मैक्वेरी कैपिटल के सुरेश गनपति ने इन सुझावों को मजबूत सिफारिशें करार दिया है, हालांकि उन्हें इसे लेकर संदेह है कि क्या इन पर वास्तविकता से अमल होगा। ऐसी राय जाहिर करने वाले वह अकेले नहीं हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का भी कहना है कि इन सुझावों की स्वीकार्यता एक प्रमुख सवाल है। उन्होंने कहा, 'निर्णायक तौर पर स्वीकार्यता आरबीआई पर निर्भर है।' फिर भी, विश्लेषकों का मानना है कि आशंकाओं के बावजूद बैंकों और एनबीएफसी के शेरर इन सुझावों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाएंगे।

एचडीएफसी बैंक और इंडसइड बैंक दो प्रमुख प्रवर्तक-केंद्रित बैंक, जिनमें इंडसइड बैंक के प्रवर्तक बैंक में

बैंक वित्तवले वाली संभावित एनबीएफसी

कंपनी	प्रवर्तक हिस्सेदारी (फीसदी)	कर्ज (करोड़ रुपये)
आदित्य बिड़ला कैपिटल	70.5	70,015
बजाज फाइनेंस	56.1	1,62,134
वोला इन्वेस्ट. ऐंड फाइनेंस	51.6	63,205
एलएंटेंटी फाइनेंस	63.7	1,08,107
एमएंटेंएम फाइनेंशियल	52.2	77,942
मुथूट फाइनेंस	73.4	52,953
पीरामल कैपिटल*	46.1	50,489
श्रीराम ट्रांसपोर्ट	26.5	1,12,877
* 31 मार्च, 2019 को		स्रोत : कैपिटलाइन। संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो



अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए आरबीआई के साथ अनुरोध पहले ही कर चुक हैं। आईडब्ल्यूजी की सिफारिशें 15 जनवरी 2021 तक दिशा आमंत्रित किए जाने के लिए खुली हुई हैं और उसके बाद ही इस संबंध में अंतिम

दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे। हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनोज (भारत) के चेयरमैन अशोक हिंदुजा ने इन प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया

‘प्रवर्तक जिम्मेदारिया सुनिश्चित कर संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने में मदद मिलती है।’ विश्लेषकों को उम्मीद है कि इंडसइड बैंक का शेरर प्रवर्तकों के इरादों को देखते हुए सोमवार को सकारात्मक दायरे में

कारोबार करेगा। एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक और येस बैंक जैसे गैर-प्रवर्तक केंद्रित बैंकों ने इस साल बड़ी निजी इक्विटी (पीई) कंपनियों वेन कैपिटल, बैरिंग कैपिटल और टिल्डेन पार्क के साथ भागीदारी की है।

मझोले आकार के बैंक के मुख्य कार्यधिकारी ने कहा, ‘प्रस्तावित मानकों से हमारी मूल्य निर्धारण ताकत में इजाफा होगा।’ विश्लेषकों के अनुसार, ‘अन्य प्रमुख नामों में, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फस्ट बैंक, फेडरल बैंक और डीसीबी बैंक लाभान्वित हो सकते हैं।’ नए सुझावों के अनुसार, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के परिसंपत्ति आकार

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda	गुडगांव प्रमुख शाखा 42, पुराना न्यायिक परिसर, झाड़सा रोड, गुडगांव (हरियाणा)–122001
--	---

कब्जे का नोटिस (अचल सम्पत्ति के लिये) [नियम 8(1) देखें]

जुके, अयोहस्ताक्षरी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा का अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवम पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और धारा 13(12) के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के सहपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **01.09.2020** को डिमांड नोटिस जारी करते हुए कर्जदारों – **श्री अशोक कुमार कटारिया और श्री वीरेंद्र कुमार कटारिया, दोनों का पता: मकान नंबर 1137/29 (पुराना नंबर 622/10), खसरा नंबर 824, कृष्णा कॉलोनी, सेक्टर – 7, गुडगांव (हरियाणा) – 122001** को नोटिस में उल्लिखित रु. 26.83,680.00 (केवल छब्बीस लाख तिरासी हजार छः सौ अस्सी रुपये) की देय राशि के साथ आगे संविदात्मक दर पर उसका ब्याज और भुगतान की तारीख तक लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ कथित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की गई है।

कर्जदार /गारंटर देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, कर्जदार /गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है, कि अयोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **18 नवम्बर 2020** को नीचे बर्णित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों / गारंटरों और आम जनता को एतद्द्वारा साबधान किया जाता है कि ये कथित संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनकें द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का लेनदेन रु. **26.83,680.00 (केवल छब्बीस लाख तिरासी हजार छः सौ अस्सी रुपये)** की देय राशि के साथ आगे संविदात्मक दर पर उसका ब्याज और भुगतान की तारीख तक लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बैंक आफ बड़ौदा, गुडगांव प्रमुख शाखा **42**, पुराना न्यायिक परिसर, झाडसा रोड, गुडगांव (हरियाणा)-122001 के प्रभार के अधीन होगा।

[कर्जदार का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत संपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है।]

अचल /चल संपत्ति के विवरण
1137/29 (पुराना नंबर 622/10) खसरा नंबर, कृष्णा कॉलोनी, सेक्टर – 7 के सामने, गुडगांव, परियाप 184.90 वर्ग गज की न्यायोचित बंधक पर रहे आवासीय मकान का सारा हिस्सा और उसमें सब कुछ शामिल है, घनी राम यादव, स्थायी और निरंतर लोक अदालत, गुडगांव के पीआरसीन जज द्वारा दिनांक 26.08.2009 को पारित अधिनियमों के माध्यम से श्री अशोक कुमार कटारिया और श्री वीरेंद्र कुमार कटारिया के नाम पर है।
जौहद्दी: उत्तर में: सड़क, पूर्व में: रास्ता, दिनांक: 18.11.2020 स्थान: गुडगांव
दक्षिण में: अन्य की संपत्ति परिधम में: अन्य की संपत्ति से घिरी है।
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा।

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda	गुडगांव प्रमुख शाखा 42, पुराना न्यायिक परिसर, झाड़सा रोड, गुडगांव (हरियाणा)–122001
--	---

कब्जे का नोटिस (अचल सम्पत्ति के लिये) [नियम 8(1) देखें]

जुके, अयोहस्ताक्षरी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा का अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवम पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और धारा 13(12) के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के सहपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **01.09.2020** को डिमांड नोटिस जारी करते हुए कर्जदारों – **मैसर्स रोहित किचनवेयर अपने साझेदारों श्री अशोक कुमार कटारिया, श्री वीरेंद्र कुमार कटारिया और श्री रोहित कटारिया के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका निवास मकान नंबर 1137/29 (पुराना नंबर 622/10), खसरा नंबर 824, कृष्णा कॉलोनी, सेक्टर 7 के सामने, गुडगांव – 122001** पर एतद है, को नोटिस में उल्लिखित रु. 20,44,183.86 (केवल बीस लाख चौवालीस हजार एक सौ तिरासी रुपये और छियासी पैसे) की देय राशि के साथ आगे संविदात्मक दर पर उसका ब्याज और भुगतान की तारीख तक लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बैंक आफ बड़ौदा, गुडगांव प्रमुख शाखा, **42**, पुराना न्यायिक परिसर, झाडसा रोड, गुडगांव (हरियाणा)-122001 के प्रभार के अधीन होगा।

[कर्जदार का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत संपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है।]

अचल /चल संपत्ति के विवरण
1137/29 (पुराना नंबर 622/10) खसरा नंबर, कृष्णा कॉलोनी, सेक्टर – 7 के सामने, गुडगांव, परियाप 184.90 वर्ग गज की न्यायोचित बंधक पर रहे आवासीय मकान का सारा हिस्सा और उसमें सब कुछ शामिल है, घनी राम यादव, स्थायी और निरंतर लोक अदालत, गुडगांव के पीआरसीन जज द्वारा दिनांक 26.08.2009 को पारित अधिनियमों के माध्यम से श्री अशोक कुमार कटारिया और श्री वीरेंद्र कुमार कटारिया के नाम पर है।
जौहद्दी: उत्तर में: सड़क, पूर्व में: रास्ता, दिनांक: 18.11.2020 स्थान: गुडगांव
दक्षिण में: अन्य की संपत्ति से घिरी है।
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा।

‘जल्द लागू हों मोहंती समिति की सिफारिशें’

हंसिनी कार्तिक और अभिजित लेले मुंबई, 22 नवंबर

स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक की समिति की सिफारिशें जल्द लागू होने से उन्हें एक्सचेंज पर अपने शेरर सूचीबद्ध कराने के लिए और वक्त मिल जाएगा। साथ ही यह कारोबार को परटी पर लाने में भी मदद करेगा, जो कोविड-19 महामारी से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है।

मोहंती की अध्यक्षता वाला आरबीआई के आंतरिक समूह की तरफ से सुझाए गए कदम से अल्पावधि में स्मॉल फाइनेंस बैंक के नियमन से जुड़ी चिंता पर शायद असर नहीं पड़ेगा। बैंकों को मानना होगा कि मौजूदा दिशानिर्देश परिचालन में हैं और उन्हें उसी के मुताबिक काम करना होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि ये सिफारिशें कितनी जल्दी लागू की जाएंगी। इस समय ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सूचीबद्धता का समय काफी करीब है।

मोहंती समिति ने कहा है कि मौजूदा स्मॉल फाइनेंस बैंकों व पेमेंट बैंकों को 500 करोड़ रुपये के नेटवर्थ पर पहुंचने के छह साल के भीतर या परिचालन शुरू करने के 10 साल की अवधि (जो भी पहले हो) में सूचीबद्ध कराया जाना चाहिए।

आरबीआई के दिशानिर्देशों में

नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये के पहुंचने के तीन साल की अवधि में सूचीबद्ध कराना अनिवार्य बताया गया है। वे इससे पहले भी सूचीबद्ध हो सकते हैं, अगर उनका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये से कम हो। ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्हें नियमों से प्रशासित होते हैं।

एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ ने कहा कि कुछ एएफएबी ने आरबीआई से आईपीओ छह महीने टालने की अनुमति मांगी है क्योंकि उनका कारोबार कोविड महामारी से प्रभावित हुआ है। यह अनुरोध करीब तीन-चार महीने पहले किया गया था। एक अन्य सीईओ ने कहा, हम इस पर फैसले का इंतजार करना चाहेंगे, उसके बाद ही सूचीबद्धता पर फैसला लेंगे। हालांकि हममें से कुछ न पहले ही आईपीओ की तैयारी का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है।

उन्होंने कहा, अगर आरबीआई सकारात्मक जवाब देता है और उस समय तक हमारे पास मोहंती समिति की रिपोर्टें अंतिम नियम भी होंगे, तब सूचीबद्धता को टालने का कुछ मतलब हमारे लिए बनता है। हमें इस प्रक्रिया के लिए तीन साल का समय और मिल जाएगा।

महामारी के कारण पैदा हुआ अवरोध नोटबंदी से भी ज्यादा परेशानी भरा था। पूरा वित्त वर्ष 2022 कारोबार संभालने और बैलेंस शीट मजबूत करने में लग जाएगा।

लक्ष्मी विलास बैंक की नजर वसूली पर

टीई नरसिम्हन चेन्नई, 22 नवंबर

नकदी संकट से जूझ रहे 94 वर्ष पुराने बैंक लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) डीबीएस सिंगापुर की सहायक इकाई डीबीएस बैंक इंडिया के साथ विलय के जरिये अपनी पूंजी स्वच्छी समस्या से निपटने के लिए तैयार है। उसने गैर-निष्णातित आस्तियों (एनपीए) पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है जो बैंक के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैंक ने अगले 4 से 5 महीनों के दौरान 400 से 500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसा काफी हद तक ओटीएएस और वसूली के जरिये किया जाएगा। एनपीए में वृद्धि का असर बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर भी दिखा जो काफी खराब हो चुकी है। बैंक का सकल एनपीए बढ़कर वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही के अंत में 24.45 फीसदी हो गया जो सितंबर 2019 के अंत में 21.25 फीसदी रहा था। क्रमिक आधार पर भी इसमें तेजी दर्ज की गई जो जून 2020 तिमाही के अंत में 25.40 फीसदी रहा। सितंबर 2020 तक बैंक का सकल एनपीए 4,063.27 करोड़ रुपये था जबकि एक साल पहले इसी महीने के अंत में यह आंकड़ा 4,091.05 करोड़ रुपये रहा था। दूसरी ओर, शुद्ध एनपीए 7.01 फीसदी (946.72 करोड़ रुपये का हिसाब) से बढ़कर 10.47 फीसदी (1,772.67 करोड़ रुपये) हो गया।

डूबते ऋण के लिए प्रावधान

की रकम फिलहाल 80 फीसदी

पर है। जबकि छह महीने पहले यह 70 फीसदी के स्तर पर रही थी। ये सभी अनुपात काफी

सहज हैं। इन 52 दिनों में,

उन्मन्य के जरिये और एनपीए से

वसूली लगभग 50 करोड़ रुपये

रही। बैंक ने 150 करोड़ रुपये

से अधिक के बकायों का

निपटान एकमुश्त भुगतान के

साथ किया।

लक्ष्मी विलास बैंक के

निदेशक शक्ति सिन्हा ने कहा,

‘इसलिए हम उम्मीद करते हैं

कि 200 करोड़ रुपये से अधिक

बैंक में आएंगे।’ सिन्हा के

अनुसार, अन्य मामलों के

विपरीत, लक्ष्मी विलास बैंक में

कोई आपराधिक मामला नहीं

है। बल्कि समस्या यह थी कि

अधिक बड़ा होने के लिए अन्य

कंपनियों के पीछे चला गया।

HINDUJA LEYLAND FINANCE

Branch: 21-22, upper Ground Floor, Jaipur Electronic Market, near Rishi Siddhi, Gopalpura Bypass, Jaipur-302019

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE

M/s. Heera Khan & Company (Borrower)
Mrs. Subani Musalim (Co-Borrower)
Mr. Rustam Khan (Co-Borrower)
M/S GOOD WILL ENTERPRISES (Co-Borrower)
Address :- Plot No. 6, 7, 8, Chanderiya, Chittorgarh (Raj.) 312001 and House No 72 Located at Chanderiya Tehsil Chittorgarh 312001

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of Hinduja Leyland Finance Ltd. (HLFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 19.09.2020 calling upon the above mentioned borrowers vide Loan Account No. RUJUD000792 of our Branch, Chittorgarh (Udaipur) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 84,96,852/- (Rupees Eighty Four Lacs Ninety Six Thousand Eight Hundred Fifty Two Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 21st day of Nov. of the year 2020. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of HLFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the property- 1. Plot No. 6, 7, 8, Chanderiya, Chittorgarh (Raj.) 312001. Bounded By-East Road, West: Plot no 1, 2, 3, North: Road, South: Plot No. 5 2. House No 72 Located At Chanderiya Tehsil Chittorgarh 312001. Bounded By-East: Road and Property of Shambhulal, West: Road, North: House no. 73 of Mr Balaram sharma, South: House no. 71 of Mohan Singh. Your Faithfully, Authorized Officer
Date: 21.11.2020 Place: Chhittorgarh Hinduja Leyland Finance Ltd.

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

2nd Floor, Shop No 4, North West Avenue Road, Sector-4, Club Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110026

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSET OF M/S PRESIDIU EDUCATION & CHARITABLE TRUST. UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("SARFAESI ACT") READ WITH PROVISIO TO RULE 8 (6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

Whereas, Kotak Mahindra Bank Limited ("KMBL") had sanctioned certain credit facilities to M/s Presidium Education & Charitable Trust (hereinafter referred to as "Borrower"). Whereas, the Authorized Officer of Kotak Mahindra Bank Limited ("KMBL") had issued notice under the provisions of Section 13(2) of the SARFAESI Act and called upon the Borrowers and the guarantors viz. **M/s Presidium Education & Charitable Trust & Ors** to pay the amounts mentioned therein, within 60 days of receipt of the said notice. The said demand was not complied with. Pursuant to the failure to pay the amount demanded and subsequent to consent of other lenders under Section 13 (9) of the SARFAESI Act, the Authorized Officer took physical possession of the properties as detailed herein below, after complying with the provisions of the SARFAESI Act and Rules enacted therein. In exercise of the powers conferred under Section 13(4) of the SARFAESI Act read with the Rules therein, the undersigned has decided to sell the said property by E-auction. Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower and the guarantors, in particular, that the properties as mentioned herein below shall be sold on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHAT EVER THERE IS"**, by way of E auction to be conducted on, 24th December 2020, for recovery of a sum of Rs 9,69,24,133.56 (Rupees Nine Crores Sixty Nine Lakhs Twenty Four Thousand One Hundred Thirty Three and Fifty Six paise only) on 24th April 2020 together with further interest at the contractual rate from 25.04.2020 till realization, together with all incidental costs, charges and expenses. Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website/portal of M/s. E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at <https://kotakbank.auctiontiger.net>. The EMD Amount is payable by way of NEFT/RTGS/Cheque/DD in the E-Auction Account of KMBL at Mumbai viz. **"Kotak Mahindra Bank Ltd. A/C E Auction", Account No.8411307138 with Kotak Mahindra Bank Limited, Malad (East), Mumbai, Branch with IFSC Code No: KKBK0006646.** Any bid submitted without depositing the EMD amount shall stand automatically rejected. Duly filled and signed copy of Terms and Conditions dated 20.11.2020 along with PAN/Aadhar card and Address and Id Proof shall be uploaded with the online offer and EMD remittance details on the website/portal. <https://kotakbank.auctiontiger.net>

Lot No.	Particulars of Property	Reserve Price	EMD	Encumbrances
1 (Land & Building)	All that piece and parcel of property being entire Ground floor and Mezzanine floor of building constructed upon plot bearing no.163, area admeasuring 137.50 sq. yds in Block-A, shown in the layout plan of Jania Co-operative House building Society limited now known as Meera Bagh, situated at Paschim Vihar, New Delhi-110087. Bounded as under: East :- Plot No. 162, West :- Plot No. 164, North :- Plot No. 160, South :- 45 feet wide road, together with all existing building and structures thereon and building and structures as may be erected/constructed there upon any time from/after date of respective mortgages and all additions thereon and fixtures and furniture's and plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth, both present and future Name of the Mortgagee: M/s Shri Trisheshwar Developers & Builders Pvt. Ltd.	Rs 24414000/-	Rs 24414000/-	Not Known

Inspection at site : Inspection inside the site is available between 11 am to 5 pm from Monday to Friday on all working days.
Last date for deposit of EMD and uploading Bid documents : 23rd December,2020 up to 4 p.m. at <https://kotakbank.auctiontiger.net>
Date and time of E-Auction : 24th December,2020 between 11 am to 12:00 p.m.
The end time of auction will be extended by 5 minutes each time a bid is made within last 5 minutes of E-Auction.
Bid Increment amount : Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten lakhs Only) or in multiples thereof.

Inspection inside the site is available between 11 am to 5 pm from Monday to Friday on all working days, there are no other encumbrances like statutory dues like property taxes, Society dues, maintenance, electricity, water dues etc. However all any dues should be ascertained and paid by the successful bidders/prospective purchaser(s) as the sale is on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHAT EVER THERE IS". The particulars in respect of the secured assets specified hereinabove have been stated to the best of the information of the undersigned, who, however shall not be responsible for any error, misstatement or omission in the said particulars. The bidders/prospective purchaser(s) are, therefore, requested in their own interest, to satisfy himself/herself with regard to the above and the other relevant details pertaining to the abovementioned property / properties, before submitting the bids. The 25% of final purchase price minus EMD Amount shall be deposited by the successful bidder, on the next working day by way of RTGS/NEFT/Cheque/DD in the E-Auction account of KMBL as detailed above. The balance 75% of final purchase price shall be deposited by way of NEFT/RTGS/Cheque/DD within 15 days from the date of sale in the same E-Auction account as above. The refund of EMD to the unsuccessful bidders shall be made only in the account number mentioned by such bidder in the Bid/offer form within 3 working days.

The Terms and Conditions of sale are available on the website/portal <https://kotakbank.auctiontiger.net> or <https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html>
For any details with respect to any help, procedure and online training in respect of the auction process please contact M/s e-Procurement Technologies Limited-Auction Tiger B-704, Wall Street-II, Opp. Orient Club, Nr. Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380006 Gujarat (India) on Telephone No. 9265562821 - 079 61200 594 / 598 / 587/538; Mr Nitish Jha - 7982880393 and Mr Ram Sharma - 8000023297 and on E-mail ID: delhi@Auctiontiger.net, rampasad@Auctiontiger.net, support@Auctiontiger.net;
For any other details, regarding the property please contact Mr. Lalit Rankawat - 8860635652.

Important Terms & conditions:
1. For detailed Terms and conditions of auction sale, the bidders are advised to go through the portal <https://kotakbank.auctiontiger.net> or <https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html> and the said terms and conditions shall be binding on the bidders who participate in the bidding process. Also note that bid has to be filled online on the portal <https://kotakbank.auctiontiger.net>. Intended bidders are also advised to visit the web site <https://kotakbank.auctiontiger.net> for submitting their bids through online mode for participating in the E-auction.
2. Prospective bidders may avail online training from E-Procurement Technologies (Auction Tiger) on above mentioned contact numbers.
3. The bid price to be submitted shall be equal to and or above the Reserve Price and during the bidding process, bidders shall improve their further offers in multiples of Rs.10 lakhs only.
4. On receipt of the entire sale consideration within the stipulated period as mentioned above, the Authorized Officer shall issue the Sale Certificate and the sale shall be complete thereafter and the Secured Creditors shall not entertain any claims.
5. The Authorized Officer has the absolute right and discretion to accept or reject any bid or adjourn/ cancel the sale/ modify any terms and conditions of the sale without any prior notice and assigning any reason.
6. All charges / dues including Registration Charges, Stamp Duty and Taxes etc. shall have to be borne by the Purchaser.
7. The Authorized Officer has the absolute right and discretion to accept or to reject any bid or adjourn/ cancel the sale/modify any terms and conditions of the sale without any prior notice and assigning any reason.
This is also a notice to the Borrower/guarantors that the auction sale proceed if the dues are not paid in full before the date of E-Auction. It may please be noted that in case of any discrepancy/inconsistency between auction notices published in English and in Hindi then the contents of the notice published in English shall prevail.

Place : Delhi
Date : 20th November,2020
For Kotak Mahindra Bank Limited
Authorized Officer

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-II, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, Patel Chowk, New Delhi-110001
R.C. No. 495/2019
Dated : 13.11.2020
PROCLAMATION OF SALE UNDER RULES 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993
HDFC BANK VS. MANYA FOODS PVT. LTD. & ORS.
CD No. 1 Many Foods Pvt. Ltd., 25002, 1st Floor, Gali Rajghunandan, Naya Bazar, Delhi Also at: 4003, Naya Bazar, Delhi CD No. 2 Mahavir Prasad Jain, B-76, Near Mother Dairy, New Gupta Colony, Delhi CD No. 3 Panjaj Jain, B-76, Near Mother Dairy, New Gupta Colony, Delhi CD No. 4 Kailash Jain, B-76, Near Mother Dairy, New Gupta Colony, Delhi Also at: C-82, Shakti Nagar Extension, Delhi CD No. 5 Preeti Jain, B-76, Near Mother Dairy, New Gupta Colony, Delhi Also at: C-82, Shakti Nagar Extension, Delhi CD No. 6 M/s Pankaj Traders, B-76, Near Mother Dairy, New Gupta Colony, Delhi CD No. 7 M/s Jain Traders, B-76, Near Mother Dairy, New Gupta Colony, Delhi CD No. 8 M/s Pankaj Traders, B-76, Near Mother Dairy, New Gupta Colony, Delhi
Whereas you have failed to pay the sum of Rs. 14,49,95,266.81/- (Rupees Fourteen Crores Fourty Nine Lakh Ninety Five Thousand Two Hundred Sixty Six and Paise Eighty One Only) as become due from you as per Recovery Certificate drawn in O. A. No. 317 of 2018 passed by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Delhi along with interest @ 18% simple from the date of filing of this O.A. i.e. 21.06.2018, as per certificate. And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said certificate. Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said property shall be sold on 13.01.2021 between 3.00 PM to 4.00 PM (with auto extension clause in case of bid in last 5 minutes before closing, if required) by M/s. C-1 India Pvt. Ltd., Udyog Vihar, Phase 2, Building No. 301, Gurgaon, Haryana (India) Tel: 91 729198124/2526 Contact person Sh. Vinod Chauhani, Mobile No. 981387931 email: support@banksecurities.com website <https://www.banksecurities.com>. For further details contact Sh. U.V. Patil, Assistant attached to Recovery Section, DRT-III, Delhi. The sale will be of the property of the defendant above named as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule attached to each lot. No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in Second Schedule of the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions. The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation. 1. The description of properties, Reserve Price and EMD are as under:

S.No.	Property particulars	Reserve Price/EMD
(i)	B-75, Ground Floor, part of Kharsa No. 123,124 & 125 situated in the area of village Rajpur Chhawani, abadi known as New Gupta Colony, Delhi"	Rs. 31,90,000/- EMD: Rs. 3,19,000/-
(ii)	"B-76-A, forming part of Kharsa No. 120,124 & 125 situated at New Gupta Colony, Delhi, area of village Rajpur Chhawani, Delhi, New Gupta Colony, Ground Floor."	Rs. 1,75,50,000/- EMD: Rs. 17,55,000/-
(iii)	"Freehold built-up property bearing No.-11, out of Kharsa No. 129, situated in th area of Village Rajpur Chhawni, in the abadi of New Gupta Colony, Delhi, out of Kharsa No. 572/131, 123,134, 135 & 138.	Rs. 35,40,000/- EMD: Rs. 3,54,000/-
(iv)	"Residential plot No. 156, situated in Urban Estate of Sector-15, Sonapat, Tehsil & Dist.	Rs. 97,22,389/- EMD: Rs. 9,72,238/-
(v)	"L shape southern side 2nd Floor portion of property no. 40, known as property no. B-40, without terrace/roof rights, out of Kharsa No. 196, gall no. 2, Delhi situated in the area of village Rajpura Chhawani, colony known as New Gupta Colony, Delhi"	Rs. 33,75,000/- EMD: Rs. 3,37,500/-
(v a)	"Entire 1st Floor, being a part of built-up property bearing municipal No. 4122, situated at Naya Bazar, Delhi, of property No. 4122, Naya Bazar, Commercial Building with MEZZ, Naya Bazar, Delhi.	Rs. 1,50,00,000/- EMD: Rs. 15,00,000/-
(vi)	"B-76A, consisting of double storeyed old constructed house comprising in Kharsa No. 123,124,125 situated at New Gupta Colony, Delhi	Rs. 1,81,82,220/- EMD: Rs. 18,18,220/-
(vii)	One shop on built-up property bearing no. 4003 & 4004, old plot No. 1906, situated at Ward No. III, Burn Blast Road, Main Road, Naya Baza, Delhi"	Rs. 91,00,000/- EMD: Rs. 9,10,000/-

The properties shall not be sold below the reserve prices:
1. The amount by which the bid is to be increased shall be Rs. 50,00,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) for each property) in the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the property shall at once be again put up to auction.
2. The highest bidder shall be declared to be the successful bidder, subject to the condition that the bidder shall be in a position to accept the bid and to pay the purchase price on or before the date of the sale of the property. If the 15th day is Sunday or other holiday, then on the first bank working day after the 15th day by prescribed mode as stated in para 4 above. In addition to the above the successful bidder shall also deposit 75% of the sum with the Recovery Officer-II, DRT-III @ 2% upto Rs. 1,00,00,000/- and 1% of the excess of said amount of Rs. 1,00,00,000/- through DD in favour of the Registrar, DRT-III, Delhi.
3. Property shall remain open for inspection by prospective bidders on 04.01.2020 from 11.00 a.m. to 4.00 p.m. Authorized officer of the CH Bank will make necessary arrangement for inspection by the prospective buyers.
4. In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. The deposit, after deducting the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting successful highest bidder shall forfeit all claims to the property or any part of the sum for which it may subsequently become liable.
5. The property is being sold as "AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS". The outstanding dues if any, of any authority on the property/properties shall be borne by the auction purchaser/buyer/assignee from bid amount.
6. The undersigned reserves the right to accept or reject any bid or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without assigning any reason.
7. There is no updated detail of revenue/encumbrance or claim against the properties in the knowledge of undersigned at this stage. However, prospective bidders are advised to make their own due diligence w.r.t. dues of electricity/water/house tax bills or any other encumbrance etc., in their own interest, before deposit of EMD.
8. Unsuccessful bidder(s) are directed to file an application along with identity proof in the Registry of DRT-III on or before the next schedule date of hearing of the RC for refund of their EMD which shall be refunded on the schedule/subsequent date of hearing of the RC accordingly.
9. CH Bank is directed to authenticate and check the veracity of details given herein.
Given under my hand and seal on this 13th day of November, 2020. (Sandeep Handa) Recovery Officer-I, Addl. Charge

Union Bank of India

Vasundhara Enclave Branch
Plot No. 3, Local Shopping Complex, Vasundhara Enclave, Delhi - 110096

POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of erstwhile Corporation Bank, now Union Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in Exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 31/10/2020 calling upon the borrower Mr. Tejvir Singh to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 2,92,895/- (Rs Two Lakh Ninety Two Thousand Eight Hundred Ninety-Five Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and public in general that the authorized officer has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the Security Interest Enforcement Act Rule 2002 on this 21th day of November 2020.

The borrower in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Union Bank of India for an amount Rs. 2,92,895/- (Rs Two Lakh Ninety-two Thousand Eight Hundred Ninety-five Only) as on 31/10/2020 and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the act in respect of time available to redeem the security assets

Description of the immovable/mortgaged property (s)

All that part and parcel of the property consisting of Flat No. F-2(MIG), Plot No. III/24, Situated at Sector-3, Vaishali Ghaziabad, admeasuring approximately 55.73 Square meter and bounded as :- North - Flat No F -04, South - Plot No. 25, East - Corridor and Flat No F - 01, West - Road at Ground Floor
Date : 21-11-2020 Place : Delhi Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA

Union Bank of India

Vasundhara Enclave Branch
Plot No. 3, Local Shopping Complex, Vasundhara Enclave, Delhi - 110096

POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of erstwhile Corporation Bank, now Union Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in Exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 31/10/2020 calling upon the borrower Mr. Tejvir Singh to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 2,92,895/- (Rs Two Lakh Ninety Two Thousand Eight Hundred Ninety-Five Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and public in general that the authorized officer has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the Security Interest Enforcement Act Rule 2002 on this 21th day of November 2020.

The borrower in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Union Bank of India for an amount Rs. 2,92,895/- (Rs Two Lakh Ninety-two Thousand Eight Hundred Ninety-five Only) as on 31/10/2020 and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the act in respect of time available to redeem the security assets

Description of the immovable/mortgaged property (s)

All that part and parcel of the property consisting of Flat No. F-2(MIG), Plot No. III/24, Situated at Sector-3, Vaishali Ghaziabad, admeasuring approximately 55.73 Square meter and bounded as :- North - Flat No F -04, South - Plot No. 25, East - Corridor and Flat No F - 01, West - Road at Ground Floor
Date : 21-11-2020 Place : Delhi Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA

SIMBHAOLI SUGARS LIMITED

Regd. Office : Simbhaoli Dist. Hapur (U.P.) - 245207
CIN - L15122UP2011PLC044210
E-mail : info@simbhaolisugars.com
Website : www.simbhaolisugars.com

NOTICE

In view of the continuing Covid-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 & dated April 13, 2020 permitted the holding of Annual General Meetings (AGM) through Video Conferencing (VC) or Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the upcoming 9th AGM of the Members of the Company will be held on Monday, December 21, 2020 at 10.00 a.m. through VC/OAVM.

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2019-20 is to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail ID are already registered with the Company/ Registrar/Depositories. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. If your email ID is already registered as above, Notice of AGM along with Annual Report and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report and login details for e-voting.

ANG INDUSTRIES LIMITED (In Liquidation)

CIN: L51909DL1991PLC045084
Date and Time of Auction: 14th December, 2020 from 11.00 a.m. to 2.00 p.m. (With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of assets of ANG Industries Ltd. (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate in possession of the Liquidator Ankit Kishore Sinha, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench, vide order dated 1st October 2019. The sale of assets will be done by the undersigned through the e-auction platform <https://mstcecomerce.com>

Nature of Asset	Reserve Price (INR)	Earnest Money Deposit (INR)	Incremental Bid Amount (INR)
Batch 1: a) Land at Plot no. A-197, Eideco Sidcul Industrial Park, Sitarganj, Uttarakhnad, having area admeasuring 60,705 sq mt. b) Building at same location c) Plant and Machinery including inventories at the same location	15,28,00,000 (Rupees Fifteen crore twenty eight lakhs only)	1,52,80,000 (Rupees One crore fifty two lakhs eighty thousand only)	5,00,000 (Rupees Five lakhs only)

Note :- Applicable GST/taxes/duties shall be levied on final sale consideration and be borne by the Buyer

Terms and Condition of the E-auction are as under

- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHAT EVER THERE IS" BASIS and "NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger).
- The Complete E-Auction process information document containing details of the assets, online e-auction Bid Form, reserve price, earnest money deposit, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on websites <https://mstcecomerce.com> and <https://www.angliquidation.com>
- The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-auction or change the reserve price or withdraw any property or portion thereof from the auction proceedings at any stage without assigning any reason therefor.

Ankit Kishore Sinha
Liquidator in the matter of ANG Industries Limited
IP Registration Number: IBBI/IPA-002/JP-NO669/2016-2019/12027
301 & 301A, Patel House, Ranjit Nagar Complex, Ranjit Nagar, (Behind Satyam Cineplex) New Delhi - 110008
Mob: 9673170668, 9990639925, 91-45152150
Date: 23/11/2020
Place: New Delhi
E-mail: liquidatorang@gmail.com, ankitkishoresinha9@gmail.com

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

2nd Floor, Shop No 4, North West Avenue Road, Sector-4, Club Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110026

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSET OF M/S PRESIDIU EDUCATION & CHARITABLE TRUST. UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("SARFAESI ACT") READ WITH PROVISIO TO RULE 8 (6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

Whereas, Kotak Mahindra Bank Limited ("KMBL") had sanctioned certain credit facilities to M/s Presidium Education & Charitable Trust (hereinafter referred to as "Borrower"). Whereas, the Authorized Officer of Kotak Mahindra Bank Limited ("KMBL") had issued notice under the provisions of Section 13(2) of the SARFAESI Act and called upon the Borrowers and the guarantors viz. **M/s Presidium Education & Charitable Trust & Ors** to pay the amounts mentioned therein, within 60 days of receipt of the said notice. The said demand was not complied with. Pursuant to the failure to pay the amount demanded and subsequent to consent of other lenders under Section 13 (9) of the SARFAESI Act, the Authorized Officer took physical possession of the properties as detailed herein below, after complying with the provisions of the SARFAESI Act and Rules enacted therein. In exercise of the powers conferred under Section 13(4) of the SARFAESI Act read with the Rules therein, the undersigned has decided to sell the said property by E-auction. Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower and the guarantors, in particular, that the properties as mentioned herein below shall be sold on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHAT EVER THERE IS"**, by way of E auction to be conducted on, 24th December 2020, for recovery of a sum of Rs 9,69,24,133.56 (Rupees Nine Crores Sixty Nine Lakhs Twenty Four Thousand One Hundred Thirty Three and Fifty Six paise only) on 24th April 2020 together with further interest at the contractual rate from 25.04.2020 till realization, together with all incidental costs, charges and expenses. Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website/portal of M/s. E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at <https://kotakbank.auctiontiger.net>. The EMD Amount is payable by way of NEFT/RTGS/Cheque/DD in the E-Auction Account of KMBL at Mumbai viz. **"Kotak Mahindra Bank Ltd. A/C E Auction", Account No.8411307138 with Kotak Mahindra Bank Limited, Malad (East), Mumbai, Branch with IFSC Code No: KKBK0006646.** Any bid submitted without depositing the EMD amount shall stand automatically rejected. Duly filled and signed copy of Terms and Conditions dated 20.11.2020 alongwith PAN/Aadhar card and Address and Id Proof shall be uploaded with the online offer and EMD remittance details on the website/portal. <https://kotakbank.auctiontiger.net>

Lot No.	Particulars of Property	Reserve Price	EMD	Encumbrances
1 (Land & Building)	All that piece and parcel of property being land admeasuring 2 Bigha 15 Biswa (2766 sq.yds approx.) in Kharsas No. 142/259(2-2), 142/259/1(0-7) and 142/259/2(0-8) situated at extended laldera of village Kanjhawala, Delhi together with all existing buildings and structures thereon. Bounded as under: East :- Property of others, West :- Road, North :- Main Kanjhawala Road, South :- Property of others. Name of the Mortgagee: M/s Somnath Techno Build Private Limited	Rs 51444937/-	Rs 5144493.70/-	Not Known

Inspection at site : Inspection inside the site is available between 11 am to 5 pm from Monday to Friday on all working days.
Last date for deposit of EMD and uploading Bid documents : 23rd December, 2020 up to 4 p.m. at <https://kotakbank.auctiontiger.net>
Date and time of E-Auction : 24th December,2020 between 11 am to 12:00 p.m.
The end time of auction will be extended by 5 minutes each time a bid is made within last 5 minutes of E-Auction.
Bid Increment amount : Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten lakhs Only) or in multiples thereof.

Inspection inside the site is available between 11 am to 5 pm from Monday to Friday on all working days, there are no other encumbrances like statutory dues like property taxes, Society dues, maintenance, electricity, water dues etc. However all any dues should be ascertained and paid by the successful bidders/prospective purchaser(s) as the sale is on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHAT EVER THERE IS". The particulars in respect of the secured assets specified hereinabove have been stated to the best of the information of the undersigned, who, however shall not be responsible for any error, misstatement or omission in the said particulars. The bidders/prospective purchaser(s) are, therefore, requested in their own interest, to satisfy himself/herself with regard to the above and the other relevant details pertaining to the abovementioned property / properties, before submitting the bids. The 25% of final purchase price minus EMD Amount shall be deposited by the successful bidder, on the next working day by way of RTGS/NEFT/Cheque/DD in the E-Auction account of KMBL as detailed above. The balance 75% of final purchase price shall be deposited by way of NEFT/RTGS/Cheque/DD within 15 days from the date of sale in the same E-Auction account as above. The refund of EMD to the unsuccessful bidders shall be made only in the account number mentioned by such bidder in the Bid/offer form within 3 working days.

The Terms and Conditions of sale are available on the website/portal <https://kotakbank.auctiontiger.net> or <https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html>
For any details with respect to any help, procedure and online training in respect of the auction process please contact M/s e-Procurement Technologies Limited-Auction Tiger B-704, Wall Street-II, Opp. Orient Club, Nr. Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380006 Gujarat (India) on Telephone No. 9265562821 - 079 61200 594 / 598 / 587/538; Mr Nitish Jha - 7982880393 and Mr Ram Sharma - 8000023297 and on E-mail ID: delhi@Auctiontiger.net, rampasad@Auctiontiger.net, support@Auctiontiger.net;
For any other details, regarding the property please contact Mr. Lalit Rankawat - 8860635652.

Important Terms & conditions:
1. For detailed Terms and conditions of auction sale, the bidders are advised to go through the portal <https://kotakbank.auctiontiger.net> or <https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html> and the said terms and conditions shall be binding on the bidders who participate in the bidding process. Also note that bid has to be filled online on the portal <https://kotakbank.auctiontiger.net>. Intended bidders are also advised to visit the web site <https://kotakbank.auctiontiger.net> for submitting their bids through online mode for participating in the E-auction.
2. Prospective bidders may avail online training from E-Procurement Technologies (Auction Tiger) on above mentioned contact numbers.
3. The bid price to be submitted shall be equal to and or above the Reserve Price and during the bidding process, bidders shall improve their further offers in multiples of Rs.10 lakhs only.
4. On receipt of the entire sale consideration within the stipulated period as mentioned above, the Authorized Officer shall issue the Sale Certificate and the sale shall be complete thereafter and the Secured Creditors shall not entertain any claims.
5. The Authorized Officer has the absolute right and discretion to accept or reject any bid or adjourn/ cancel the sale/ modify any terms and conditions of the sale without any prior notice and assigning any reason.
6. All charges / dues including Registration Charges, Stamp Duty and Taxes etc. shall have to be borne by the Purchaser.
7. The Authorized Officer has the absolute right and discretion to accept or to reject any bid or adjourn/ cancel the sale/modify any terms and conditions of the sale without any prior notice and assigning any reason.
This is also a notice to the Borrower/guarantors that the auction sale proceed if the dues are not paid in full before the date of E-Auction. It may please be noted that in case of any discrepancy/inconsistency between auction notices published in English and in Hindi then the contents of the notice published in English shall prevail.

Place : Delhi
Date : 20th November, 2020
For Kotak Mahindra Bank Limited
Authorized Officer

Indian Overseas Bank

Asset Recovery Management Branch Rachna Building, 3rd floor, 2, Rajendra Place, Pusa Road, New Delhi -110 008, Phone 011-25758124, Email: io1997@ioib.in

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES OF GUARANTORS/ MORTGAGORS Sale of immovable property/ies mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No.54 of 2002)

whereas, the Authorized Officer of Indian Overseas Bank has taken possession of the following property/ies pursuant to the notice issued under Section 13(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 in the following loan account with right to sell the same on **"AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS"** for realization of Bank's dues plus interest & costs as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned, on behalf of consortium, in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act, read with rules 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property/ies. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal <https://ibapi.in/> or <https://mstcecomerce.com>

Name & Address of the Borrowers:	M/s Rave Scans Pvt. Ltd., Reg. Office Address: A-27, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110028. Corp. Address: A-27, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110028. (For information only)
Name & address of the Mortgagors/Guarantors:	1. Mr. Rakesh Bhatnagar (Mortgagor and Personal Guarantor) Address: 533 Mount Kailash Tower 3 East of Kailash New Delhi 110065. 2. Mrs. Anuradha Bhatnagar (Personal Guarantor) Address: 533 Mount Kailash Tower III East of Kailash New Delhi 110065 3. Mr. Bhavansh Kumar Kanwar (Mortgagor and Personal Guarantor) Address: D32 Vijay Nagar New Delhi 110009 4. Mrs. Promila Kanwar (Mortgagor and Personal Guarantor) Address: D32 Vijay Nagar New Delhi 110009 5. Late